

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट दिनांक 07.03.21

व्यक्तियों को प्रेमजाल में फंसाकर रूपये एठने वाली अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

श्री एस आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्री संजय कुमार पुलिस अधीक्षक नगर पर्यवेक्षण में थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस व राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली ।

दिनांक 07.03.2021 को श्री रामगोपाल शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नारकोटिक्स) एस0ओ0जी0 जयपुर (राजस्थान) मय टीम के थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर पर उपस्थित आये । जिन्होंने बताया कि थाना एस0ओ0जी0 जिला जयपुर राज्य राजस्थान में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 14/16 धारा 193/195/384/388/389/34 एवं 120 बी आईपीसी की विवेचना मुझ रामगोपाल शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नारकोटिक्स) के द्वारा की जा रही है। उपरोक्त मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्ता प्रियंका उर्फ पूजा उर्फ नैना वर्मा पुत्री सोहनलाल वर्मा निवासी विजयपुर रेती थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर जो वर्ष 2016 से फरार चल रही है ।

इसी क्रम में थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम व SOG टीम राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा वांछित अभियुक्ता को आज मिश्रीपुर तिराहे से प्रातः 11.00 बजे सर्विलान्स के सहयोग से गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम द्वारा वैधानिक कार्यवाही कर अभियुक्ता को राजस्थान पुलिस टीम के साथ ले जाने हेतु रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

1- प्रियंका उर्फ पूजा उर्फ नैना वर्मा पुत्री सोहनलाल वर्मा निवासी विजयपुर रेती थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर

अपराध व कार्यक्षेत्र का विवरण:-

उक्त अभियुक्ता द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर भोले भाले लोगों को प्रेमजाल में फंसाकर उनको बलात्कार/छेड़खानी के मुकदमों का भय दिखाकर पैसों की मांग की जाती थी । अभियुक्ता के सह अभियुक्त 1. प्रीति कौर पत्नी स्व0 इकबाल सिंह निवासी ननकमत्ता उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) 2. अखिलेश शर्मा एडवोकेट निवासी जयपुर 3. गिरीश पवार पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी जयपुर 4. कैलाशचन्द्र पुत्र देवीराम निवासी जयपुर पूर्व में गिरफ्तार किये जा चुके हैं ।